

मैन बाजार की दुकान में नकली शराब तैयारी करते चार पकड़े

हिन्दुस्तान टीम,एटाNewsrap

Fri, 11 Mar 2022 06:15 PM



मैन बाजार की एक दुकान में चोरी-छिपे नकली शराब तैयार हो रही थी। मिरहची, आबकारी विभाग ने जानकारी पर कार्रवाई करते हुए चार लोगों को पकड़ा। काफी मात्रा में शराब, अन्य सामान बरामद हुआ है।

पुलिस, आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मिरहची तिराहा के पास मेवाती मार्केट की दूसरी मंजिल स्थित दुकान में दबिश दी। दबिश के दौरान कुछ लोग नकली शराब तैयार कर रहे थे। देशी शराब की रिफ्लिंग करते हुए चार आरोपी सौरभ, इसका भाई गौरव, मुकेश निवासी कसबा मिरहची, नरेन्द्र निवासी जिन्हैरा मिरहची को पकड़ा।

Source: <https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/etah/story-four-caught-preparing-fake-liquor-in-man-bazaar-shop-6006071.html>